

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के दृष्टिगत जनपद में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना पटवाई:-मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब लेकर जा रहे पिता-पुत्र गिरफ्तार-15 बोतल अंग्रेजी शराब ग्रीन लेवल व्हिस्की, 19 पाउच (180 एमएल) अंग्रेजी वैगपाइपर व्हिस्की तथा 08 पच्चे देशी शराब मस्तीह मार्का बरामद-

दिनांक 12.04.2021 को थाना पटवाई, रामपुर पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति चुनाव प्रचार प्रसार में शराब पिलाने के लिए एक मोटर साईकिल पर शराब रखकर जिवाई कदीम की ओर से आ रहे है। पुलिस द्वारा चैकिंग की गयी। चैकिंग के दौरान जिवाई कदीम की ओर से आ रही मोटर साईकिल एचएफ डिलक्स रंग काला रजि0 नं0 यूपी 22एपी 5799 पर सवार दो व्यक्तियों को रोककर चैक किया गया जिनके कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी में से 15 बोतल अंग्रेजी शराब जिस पर मेक डबल्स ग्रीन लेवल व्हिस्की, 19 पाउच (180एमएल) वैगपाइपर व्हिस्की तथा 08 पच्चे देशी शराब जिस पर मस्तीह लिखा हुआ बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- (01)-जयलाल पुत्र चन्द्रपाल नि0 ग्राम अशोकपुर थाना मिलक जनपद रामपुरा
- (02)-चन्द्रपाल पुत्र नत्थूलाल नि0 ग्राम अशोकपुर थाना मिलक जनपद रामपुरा

पूछताछ:-

गिरफ्तार अभियुक्त जयलाल द्वारा पूछताछ में बताया कि साहब मेरे पिता चन्द्रपाल बी.डी.सी सदस्य के प्रत्याशी है और मतदाओं को लुभाने के लिए उन्हे यह शराब पिलाने के लिए लेकर जा रहे थे कि आपने हमे पकड लिया।

बरामदगी:-

- (01)-01 प्लास्टिक की बोरी में 15 बोतल अंग्रेजी शराब ग्रीन लेवल व्हिस्की,
- (02)-19 पाउच (180 एमएल) अंग्रेजी वैगपाइपर व्हिस्की,
- (03)-08 पच्चे देशी शराब मस्तीह मार्का,
- (04)-01 मोटर साईकिल एचएफ डिलक्स रंग काला रजि0 नं0 यूपी22एपी5799,

कार्यवाही:-

मु0अ0सं0 78/2021 धारा 60/72 आबकारी अधि0 व धारा 171(ज)/188 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना शाहबाद:-50 पव्वे देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-दिनांक 13-04-2021 को थाना शाहबाद, रामपुर पुलिस द्वारा गगन पुत्र सुखीराम निवासी ग्राम ढकिया थाना शाहबाद, रामपुर को ग्राम ढकिया से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 50 पव्वे देशी शराब के बरामद हुए। इस सम्बंध में थाना शाहबाद रामपुर पर मु0अ0सं0-146/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 171(ई) भादवि का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना गंज:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-दिनांक 13-04-2021 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा मौहम्मद फारूख पुत्र मिद्दन निवासी सैजनी नानकार थाना गंज, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना खजुरिया:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-दिनांक 13-04-2021 को थाना खजुरिया, रामपुर पुलिस द्वारा गजराम पुत्र रामदयाल निवासी गुलाम गंज थाना खजुरिया, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।